

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।**

पत्रांक:—

2492 अ३३

दिनांक:—

26-12-2024

प्रेषक,

ई० ब्रजेश कुमार,  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,  
एम०आर० 3054  
अनुरक्षण एवं मरम्मत कोषांग,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:—

शीर्ष 3054 अंतर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत स्वीकृत कार्यों के आवंटन की मांग हेतु अधियाचना के संबंध में।

प्रसंग:—

भवदीय पत्रांक 113 अनु० पटना दिनांक 10.01.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में शीर्ष 3054 अंतर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 से संबंधित पथ में आवंटन की मांग की गयी है। वांछित विवरणी विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त पथ में आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि स-समय भुगतान किया जा सके।  
अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/12/2024

(ई० ब्रजेश कुमार)

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।



**New Maintenance Policy-2018**  
**FRORM GFR 19-A**  
**(See Government of India's decision (1) below Rule-150)**  
**Form of Utilization Certificate up to 26.12.2024**

SL NO	Name of Scheme	Sanction No & date with Amount (in lacs)	Amount Received (in Lacs)	Particulars
1.	Construction of Rural roads under New Maintenance Policy-2018	Fund Received from Secretary Cum Empowered officer BRRDA Patna upto F/Y -2024-25		Certified that out of Rs. 7325.75196 lacs. of grants-in-aid sanctioned upto the year 2024-25 in favour of Executive Engineer R.W.D (Works) Division Madhubani under this department, a sum of Rs. 6792.43393 lacs. has been utilized for the purpose of New Maintenance Policy-2018 schemes Fund and Rs. 533.31803 lacs. remaining unutilized at the end of the period under report.
		Total:-	7325.75196	
		Expenditure upto the F/Y -2024-25	7325.75196	
		Balance-	6792.43393	
			533.31803	

2. Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grant in aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and then I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

**Kind of Checks exercised: -**


- Works have been supervised by Executive Engineer /Superintending Engineer
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction material have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBS and Test check conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer
- All other caudal formalities have been observed.

3. **Physical Progress achieved:-**

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

  
(Ravi Kant)

Sr. Divisional Accounts Officer  
R.W.D, Works Division, Madhubani

  
(Er. Brajesh Kumar)  
Executive Engineer  
R.W.D, Works Division, Madhubani

## RWD, Works Division, Madhubani

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division:-RWD, (W) Division, Madhubani																		
Sl No	Package No	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of RRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakhs)	Up-to-date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					6	7	Initial Rectification With Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/MA/MAD /23/0003	T06 - GARIYA MOIN TOLA	31909602082	1447 & 28-02-2023	1.100	66.67100	50.28081	11.98136	01 MBD/2023-24	11-04-2024	-	3726	25MM	5.04	0.00000	0.00000	50.03081	

नोट:-

- विभागीय पत्रांक-3030(सु) 3054-4-04/2020 पार्ट 4 5047 दिनांक 23.12.2021 के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि-
- गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराने के बाद MIB में दर्ज किया गया है।
  - सम्बन्धित कार्य कर्तव्य अभियंता द्वारा करवाया गया (100% जांचा गया) सहायक अभियंता द्वारा 50% तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा 10% जांचा गया तथा MIS पर Upload किया गया।

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
कार्यपालक अभियंता,  
प्रमुख कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी



Road Name- T06 - GARIYA MOIN TOLA

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEG ORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
29/11/24	18:35:12	40	0.1	320	10.1	3200	3767	G	26.32013	86.16973	Normal
29/11/24	18:36:0	40	0.1	280	20.2	2800	3313	G	26.319713	86.169057	Curve
29/11/24	18:36:23	40	0.1	340	10.1	3400	3994	G	26.319295	86.168753	Normal
29/11/24	18:36:23	40	0.1	290	20.2	2900	3426	G	26.318378	86.16872	Normal
29/11/24	18:36:23	40	0.1	280	20.2	2800	3313	G	26.31747	86.168585	Normal
29/11/24	18:37:0	40	0.1	320	20.2	3200	3767	G	26.316608	86.168298	Speed Breaker
29/11/24	18:37:0	40	0.1	340	10.1	3400	3994	G	26.315843	86.167878	Curve
29/11/24	18:37:33	40	0.1	330	10.1	3300	3881	G	26.315057	86.167777	Normal
29/11/24	18:38:8	40	0.1	340	10.1	3400	3994	G	26.314247	86.168198	Speed Breaker
29/11/24	18:39:0	40	0.1	340	10.1	3400	3994	G	26.313385	86.168047	Normal
29/11/24	18:39:19	40	0.1	300	10.1	3000	3540	G	26.312615	86.167473	Normal
Total		1.10						3726			

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 3000$$

$$Y = 3540$$

(R) RURAL ROAD

Good	Average	Poor
<4000	4001-5000	>5001

Dr. K. V. V.  
99.11.24  
J.C. Pandey

Dr. K. V. V.  
25/12/24  
A. E. Pandey

Madh  
29.11.24  
A. E. V.

Dr. K. V. V.  
26/12/2024  
Executive Engineer  
R.W.D. Works Division  
Madhubani



Name of Customer :	Anand Prasad
Name of Work/ Road :	T06 - GARIYA MOIN TOLA
Lab Job number :	40
Date :	29.11.2024
Section No. :	40


Test Date :	29-11-2024	Road Name :	T06 - GARIYA MOIN TOLA
Machine No :	397	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No :	3	Side :	Pendant
Start E No :	13	Interval	
Weather :	Normal	UV Range :	2313 To 5000 mm/km
Start Location :	26 32013.861	Dist Range :	0 To 1.2 0.1 * 1000 m
End Location :	26 312615.86	Equation :	$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 1325$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : E:\RWD Madhubani\steco\Anand Prasad\29111841.Xls, Section No. : 40, Eqn :  $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X +$   
 Name of Customer : Anand Prasad, Name of Work/ Road : T06 - GARIYA MOIN TOLA, Lab Job number : 40



hant Kumar  
29.11.24  
S.C. Pandey

Chauhan  
25/11/24  
A.E. Pandey

Nadki  
29.11.24  
AETN

26/11/2024  
Executive Engineer  
R.W.D. Works Division  
Madhubani